

AJ-1568
M. Com. (Final)
Term End Examination, 2021-22
SECURITY ANALYSIS & PORTFOLIO MANAGEMENT
(Group-A) (Paper-V)

Time : 3 hours]

[Maximum Marks : 100

नोट— किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Attempt any five questions. All questions carry equal marks.

1. जोखिम से आप क्या समझते हो ? जोखिम को मापने के किसी एक तरीके की व्याख्या कीजिए।
What do you mean by risk ? Explain one method of measurement of risk.
2. प्राथमिक बाजार के कार्य एवं भूमिका को बताइए। प्राथमिक बाजार में प्रतिभूतियों के विक्रय की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
Explain about role and functions of primary market. Also enumerate the steps of sellings securities in primary market.
3. मर्चेन्ट बैंकर्स से आप क्या समझते हैं ? सार्वजनिक निगमन के सम्बन्ध में मर्चेन्ट बैंकर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी लिखिए।
Discuss about merchant bankers and also write down the procedures of appointment of merchant bankers in case of public issue.
4. वित्तीय सम्पत्तियों पर प्रतिफल का आप कैसे आकलन करेंगे? उदाहरण के साथ विवरण दीजिए।
How would you assess the return of financial assets ? Explain with examples.
5. स्टॉक एक्सचेंज की व्यापार प्रणाली की व्याख्या कीजिए। प्रतिभूतियों के सूची (लिस्टिंग) प्रक्रिया को भी बताइए।
Explain the Trading Mechanism in stock exchanges. Also write down the listing procedure of securities in stock exchange.
6. किसी एक बांड के वर्तमान मूल्य की गणना आप कैसे करेंगे ? किसी एक बांड वैल्यू थ्योरी की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
How would you access the present value of a bond ? Explain one bond value theory with example.
7. प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में उद्योगों के विश्लेषण की आवश्यकता क्यों है ? उद्योग विश्लेषण के प्रमुख तत्त्वों पर प्रकाश डालिए।
Why industry analysis is important in security valuation ? Highlight the important considerations in industry analysis.
8. कुशल बाजार परिकल्पना के अर्ध-मजबूत और मजबूत रूप के परीक्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
Describe briefly the tests of semi-strong and strong form of efficient market hypothesis.
9. मार्कोविज रिस्क रिटर्न आप्टीमाइजेशन थ्योरी पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
Write a detailed note on Markowitz risk return optimisation theory.
10. आरबिट्रेज थ्योरी क्या है ? यह कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से कैसे भिन्न है?
Discuss Arbitrage Pricing theory. How is it different from Capital Asset Pricing Model ?